

To 2 To Jagirgachh To Noniagachh Sarswati
Schedule XLV-Form No. 134

Agreement no - 28/MAGSY(SC)/SBD/2020-21

R.W.D.W.D Kishanganj - 2 **DIVISION**

Pothia **SUB-DIVISION**

MB NO - 1136

MEASUREMENT BOOK

Name of Agency - M.D. Firoz Ansari

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापि पुस्त में कुल 100
(एक सौ) मुद्रित दोहरे पृष्ठ है। जो... श्री... रामू प्रसाद
सहायक अभियंता, ग्रा०का०वि०कार्य अवर प्रमण्डल... पोथी
के नाम से निर्गत किया जाता है।

कार्यपालक अभियंता
ग्रा०का०वि०कार्य प्रमाण
26/12/20

Sch. XLV—Form No. 134

R.W.D.W.D Kishanganj Division
pothia SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1136

Name of Officer श्रीरामू प्रसाद

Date of first entry

Date of last entry

1st on AIC Bill

Details of Measurement

1

Name of work—
 Situation of work—
 Agency by which work is executed—
 Date of measurement—
 No. and date of agreement.
 (These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
N/W - To 2 Jag'sgachh to					
Nom'sgachh Sasasmita					
Wm mussy (SC)					
Ans - me. Fuzi Arsan					
Date of Est - 11.06.2020					
Date of C. & P. - 10.03.2021					
Date of Entry - 25.9.2020					

(1) Continuation of Recharge Branch
 work done

$$20 \times 30.00 = 600.00 \text{ m}$$

$$3 \times 20.00 = 60.00 \text{ m}$$

$$1 \times 13.00 = 13.00 \text{ m}$$

$$673.00 \text{ m}$$

$$= 0.673 \text{ Km}$$

(2) Continuation of Recharge of Poles
 done

24 m of N/W (1) m

$$0.673 \text{ Km}$$

(3) Change in Recharge of Poles
 work done

work done

work done

Continuation

$$1.346 \text{ Km} + 0.673 \text{ Km} = 2.019 \text{ Km}$$

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

we 0-20 179					
(13) Containing submerg					
with approx. values					
do do.					
- By Salt chart					

Chain	Diff. Area	Mean Area	Dist	Value
00-00	2.458	—	—	—
50-00	3.568	3.613	50	150.65
100-00	4.110	3.839	50	191.95
150-00	6.235	5.123	50	258.63
200-00	3.568	4.902	50	245.08
250-00	3.511	3.840	50	176.98

300-00	3.522	3.577	50	175.83
350-00	7.255	5.289	50	269.43
400-00	4.322	5.789	50	289.43
450-00	3.855	4.089	50	204.43
500-00	5.458	4.657	50	232.83
550-00	3.568	4.513	50	225.65
600-00	6.235	4.902	50	245.08
650-00	8.665	7.450	50	372.50
673-00	6.235	7.450	23	171.35

				3209.820
Depth below surface (ft)				1574.820 m
W.B.M. (ft)				550.58 m
W.B.M. (ft)				191.17 m
				50.93 m

Continuation

W.B.M. 607.42 — 505.37 m

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(A) Level for 1000 m					
ul					$505.37 \times 60\% = 303.22 \text{ m}^3$
(B) Level 100 m					
ul					$505.37 \times 40\% = 202.15 \text{ m}^3$
(C) Contention & subgrade earth shoulder def					
→					$10 \times 3000 \times 500 \times 0.40 = 600 \text{ m}^3$
→					$10 \times 3000 \times 500 \times 0.50 = 750 \text{ m}^3$
→					$2 \times 2000 \times 500 \times 0.40 = 120 \text{ m}^3$
→					$1 \times 1300 \times 500 \times 0.30 = 19.50 \text{ m}^3$
					<u>1479.50 m³</u>
(6) Puhur Wastani Puhur					

Final data

$- 20 \times 300 \times 4.05 \times 0.200 = 486 \text{ cm}^3$

Km
25-9-2020

Metric Volume

(i) CR-B - 435.45 cm^3

(ii) Fuel Sol - 186.62 cm^3

(iii) Galt - 1489.50 cm^3

Km
20

Continuation

Abstract of Coll.

4

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(1) Cushtumb chakunt mlt					
Banch mltc dlt					
chukshala (1) P-1					
0-673 km					
Qu 1339.1-26/km → 228320					
(2) Cushtumb Rehman					
Pullus Bungee dlt					
chukshala (1) P-1					
0-673 km					
Qu 1579.28/km → 106320					
(3) chugul abhismul					
chukshala (3) P-2					
0-20179					
Qu 51109.28/179 → 1022220					
(4) Cushtumb chakunt					
keel 1000m dlt					
chukshala (4) A P-3					
0-303.22m3					
Qu 17463/93 → 5295120					
(5) Cushtumb chakunt dlt					
100m dlt					
chukshala 400 P-3					
202.15m3					

Continuation

Qu 151.00/m3 → 30525200

97044200

Continuation